



KOTIA ENTERPRISES LIMITED

Formerly known as INTERNATIONAL PUMPS AND PROJECTS LIMITED

Date: 29.06.2021

The BSE Limited
Phiroze Jeejeeboy Towers
Dalal street,
Mumbai- 400001
Email Id: corp.relations@bseindia.com

Metropolitan Stock Exchange
4th Floor, Vibgyor Towers, Plot No. C-62
Bandra Kurla Complex, Bandra east
Mumbai- 400098
Email Id: raviraj.nirbhawane@mcx-sx.com

Subject: Newspaper Advertisement of Financial Results of the Company.

Pursuant to Regulation 30 & 47 of securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, we are forwarding herewith copies of Newspaper clippings of Audited Financial Results of the Company for quarter and Year ended March, 31st, 2021 on Tuesday, June, 29th, 2021 in "Financial Express", in English language and "Jansatta", in Hindi language.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours faithfully

For Kotia Enterprises Limited

Ayush Jindal
Ayush Jindal
(Company Secretary & Compliance officer)



14 FINANCIAL EXPRESS

Basic :	0.00	0.12	(0.06)
Diluted:	0.00	0.12	(0.06)

- Notes:**
- The above is an extract of the detailed format of the audited financial Results for the fourth quarter and year ended March 31, 2021 filed with the BSE under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results ended March 31, 2021 is available on the BSE website (www.bseindia.com) and Company's website (www.bjduplexboards.com).
 - The above audited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on 28th June, 2021.
 - The Company is not able to arrange balance confirmation from debtors and creditors hence balances of debtor and creditor are taken subject to confirmations.

For BJ DUPLEX BOARDS LIMITED
Sd/-
SATYA BHUSHAN JAIN
WHOLE TIME DIRECTOR
DIN: 00106272

Date : 28th June, 2021
Place : New Delhi

KOTIA ENTERPRISES LIMITED

Regd. Off.: 905, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi-110001
CIN: L74110DL1980PLC010678 Tel:- 91-11-40045955

E mail: compliance@kotiaenterprises.com, Website: www.kotiaenterprises.com

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON MARCH 31, 2021 (Rs. In Lakhs)

Sl. No.	Particulars	For Quarter ended	For Quarter ended	year ended	
		31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
		Audited	Audited	Audited	Audited
1	Total income from operations (net)	42.28	59.45	168.14	4313.06
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	19.26	14.43	37.98	132.28
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	19.26	14.43	37.98	132.28
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	14.38	10.39	28.36	97.61
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (tax) and other Comprehensive Income (after tax))	15.83	1.35	28.36	111.26
6	Equity Share Capital	702.05	702.05	702.05	702.05
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-
8	Earnings Per Share (after extraordinary items) (of ₹ 10/- each)				
	Basic :	0.20	0.15	0.40	1.39
	Diluted :	0.20	0.15	0.40	1.39

- Notes:**
- The above Audited financial results for the quarter and year ended 31st March, 2021 has been reviewed by the Audit Committee and then approved by the Board of Directors at their meeting held on 28th June, 2021.
 - The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter and year ended are available on the website of BSE at www.bseindia.com.
 - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit & Loss in accordance with Ind-AS Rule.
 - The outbreak of Covid-19 pandemic is causing significant disturbance and slowdown of economic activities globally. The management has considered the possible effects that may result from the pandemic on the recoverability / carrying value of the assets. Based on the current indicators of future economic conditions, the management expects to recover the carrying amount of the assets, however the management will continue to closely monitor any material changes to future economic conditions. Given the uncertainties, the final impact on Company's assets in future may differ from that estimated as at the date of approval of these financial results.

For Kotia Enterprises Limited
Sd/-
Ayush Jindal
(Company Secretary & Compliance officer)

Place: New Delhi
Date: June 28, 2021

OSCAR GLOBAL LIMITED

CIN NO. L51909DL1990PLC041761

Regd. Office : 1/22, SECOND FLOOR ASIF ALI ROAD NEW DELHI-110002.

TEL: 9810337978, E-mail: oscar@oscar-global.com, Website: www.oscar-global.net

Audited Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2021

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended	Current Year Ended	Corresponding 3 months ended in the previous year
		31.03.2021	31.03.2021	31.03.2020
		Audited	Audited	Audited
1.	Total Income from Operations	0.00	5.28	0.00
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(39.20)	(65.69)	(8.83)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or	(39.20)	(65.69)	(8.83)

2. The figures are regrouped/rearranged wherever necessary.

Place : New Delhi
Date : June 28, 2021

Kanwarpal Singh Kochhar
Chairman & Managing Director
DIN : 00529230



SHAHDARA BRANCH
G.T. Road, Shahdara, Delhi-110032

POSSESSION NOTICE

(Under Section 13(4) of Securitization Act, 2002 read with Rule 8 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Whereas the undersigned being the authorized officer of **BANK OF INDIA** under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Second) Act, 2002 (Ord. 3 of 2002) and in exercise of power conferred under section 13(12) read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 01/04/2021 calling upon **Ms Prem Lata, Mr Shyam Sunder and Mr. Ankit Panchal** to repay the amount mentioned in the notice being **Rs. 26,43,237.30 (Rs. Twenty Six Lakh Forty Three Thousand Two Hundred Thirty Seven and Paise Thirty)** as on 31/03/2021 with further interest, expenses and other charges etc. thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers /Guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower /Guarantor and the public in general that the undersigned has taken physical possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Sec. 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on this 24th day of **JUNE** day of the year 2021.

The borrower /Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the Property and any dealing with the Property will be subject to the charge of the **Bank of India, SHAHDARA Branch** for an amount **Rs. 26,43,237.30 (Rs. Twenty Six Lakh Forty Three Thousand Two Hundred Thirty Seven and Paise Thirty)** as on 31/03/2021 with further interest, expenses and other charges etc. thereon.

Description of the Immovable Property

EQM of property bearing No- 1/3377-A, Gali No. 3, Khasara No. 572 with Terrace right IInd & IIIRD Floor, Ram Nagar, Shahdara, Delhi-110032, Property stands in the name of Ms Prem Lata

Date : 24-06-2021, Place: New Delhi

Authorised Officer, Bank of India

BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR NORTHERN REGION

In the matter of sub-section (4) of section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND

In the matter of JBM CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED

Registered office at 601, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi- 110019
(CIN: U74140DL2011PTC227157)

NOTICE

Notice is hereby given to General Public that the Company proposes to make the application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act 2013, seeking confirmation of alteration of Memorandum of Association of the Company in terms of Special Resolution passed at Extra Ordinary General Meeting held on Saturday, 26th June of 2021 to enable the Company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to "State of Haryana".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change, may deliver either on **MCA portal (www.mca.gov.in)** by filing **investor complaint** form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and ground of opposition to the **Regional Director** at the Address **B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003**, within 14 Days of date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

Address of Registered Office: 601, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi-110019

For and on behalf of
JBM Corporate Services Private Limited
Sd/-
(Vinay Maheshwari)
Director

Place: Delhi
Date: 26.06.2021

DIN: 01277826



EbiXCASH WORLD MONEY INDIA LIMITED

CIN: L65990MH1985PLC037697

Regd. Office: 8th Floor, Manek Plaza, Kalina CST Road, Vidya Nagri Marg, Kalina, Santacruz (East), Mumbai 400 098.
Tel: +91-22-62881500 | Email: corp.relations@ebixcash.com, Website: www.indiaforexonline.com

Members of EbiXcash World Money India Limited (the 'Company') are hereby informed that pursuant to Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended read with the General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 22/2020 dated 15th June 2020, 33/2020 dated 28th September 2020 and 39/2020 dated 31st December, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars'), or re-enactment thereof for the time being in force), the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and such other applicable laws and regulations, the Company has on 28th June 2021,

टिप्पणी:

- 31 मार्च, 2021 को समाप्त उपरोक्त वित्तीय परिणामों, जिसकी ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई, को 28 जून, 2021 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए।
- उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों के संपूर्ण प्रारूप का सार है। इन वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com, www.nseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.oscar-global.net) पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से
ऑस्कर ग्लोबल लिमिटेड

हस्ता/-

(करण कणिका वर्मा)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

DIN:0034343

स्थान: नोएडा

तिथि: 28.06.2021

कोटिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड

पंजी. कार्या.: 805, न्यू दिल्ली हाउस, 27, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110001

CIN: L74110DL1980PLC010678 फ़ोन: 91-11-40045955

ई मेल: compliance@kotiaenterprises.com, वेबसाइट: www.kotiaenterprises.com

31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए अंकेषित वित्तीय परिणाम

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही हेतु	समाप्त तिमाही हेतु	समाप्त वर्ष	
		31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
		अंकेषित	अंकेषित	अंकेषित	अंकेषित
1	प्रचालन से कुल आय (शुद्ध)	42.28	59.45	168.14	4313.06
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवादात्मक और/व असाधारण मदों से पूर्व)	19.26	14.43	37.98	132.28
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/व असाधारण मदों के बाद)	19.26	14.43	37.98	132.28
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/व असाधारण मदों के बाद)	14.38	10.39	28.36	97.61
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल)	15.63	1.35	28.36	111.26
6	इक्विटी शेयर पूंजी	702.05	702.05	702.05	702.05
7	पिछले वर्ष की अंकेषित बैलेंस शीट में दिखाए अनुसार रिजर्व (पुनर्मुल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)				
8	प्रति शेयर आय (असाधारण मदों के बाद) (प्रत्येक ₹ 10/-)				
	बेसिक :	0.20	0.15	0.40	1.39
	डायल्यूटेड:	0.20	0.15	0.40	1.39

नोट्स:

- 28 जून, 2021 को आयोजित बैठक में 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए उपरोक्त अंकेषित वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई है और फिर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।
- सेबी (लिसिटिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दर्ज की गई ऊपरोक्त 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का उद्धरण है। समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों का संपूर्ण विवरण बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।
- अपवादात्मक और/व असाधारण मदें, Ind-AS नियम के अनुसार लाभ और हानि के विवरण में समायाजित हैं।
- कोविड -19 महामारी का प्रकोप वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण गड़बड़ी और मंदी का कारण बन रहा है। प्रबंधन ने संभावित प्रभावों पर विचार किया है जो संपत्ति की वसूली / वहन मूल्य पर महामारी से उत्पन्न हो सकते हैं। मविष्य की आर्थिक परिस्थितियों के वर्तमान संकेतकों के आधार पर, प्रबंधन को उम्मीद है कि परिस्थितियों की वहन राशि की वसूली की जाएगी, हालांकि प्रबंधन मविष्य की आर्थिक परिस्थितियों के लिए किसी भी मौखिक परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगा। अनिश्चितताओं को देखते हुए, मविष्य में कंपनी की परिस्थितियों पर अंतिम प्रभाव इन वित्तीय परिणामों के अनुमोदन की तारीख से अनुमानित रूप से अलग हो सकता है।

कृते कोटिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड

हस्ता/-

आरुण चिंदल

(कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 28 जून, 2021

CENLUB INDUSTRIES LIMITED

Plot No-233-234, Sector-58, Ballabgarh, Faridabad-121004, (Haryana)

Ph.: 91-8826794470-73 Fax: 91 (129) 2307263 Website: http://www.cenlub.in

Corporate Identity Number: L67120HR1992 PLC035087 Email: investors@cenlub.in

Statement of Audited Financial Results for the quarter and Year ended 31 March 2021

(Rs. In Lakhs)

Sr. no	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		31-Mar-21 (Audited)	31-Mar-20 (Audited)	31-Mar-21 (Audited)	31-Mar-20 (Audited)
1	Total income from operations (net)	1,386.77	1,446.48	4,233.01	4,020.01

वर्ष प्रचालनों के लिए) बेसिक व डायल्यूटेड (₹ में)	(0.04)	(0.01)
---	--------	--------

नोट्स:

- यह विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (संशोधित) के अनुसार तैयार किए गए 133 के तहत और अन्य मान्यता प्राप्त लेखांकन प्रथाओं और नीतियों को संभव सी
- 28 जून, 2021 को आयोजित बैठक में उपरोक्त अंकेषित वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमेंटी द्वारा स्वीकृत किए गए।
- कंपनी के सांघिक लेखा परीक्षकों ने परिणाम सेबी (विनियमन सूची और प्रकटीकरण आ 33 के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए उपरोक्त परिणामों की सीमित असंशोधित राय जारी की गई है और उपरोक्त वित्तीय परिणामों के साथ स्टॉक एक्सचेंज
- यूक्ति कंपनी एकल खंड में काम करती है, खंड वार रिपोर्टिंग IndAS 108 के अनुसार ला
- वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.ocril.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट ww
- पिछली वर्ष/तिमाही के आकड़ों को तिमाही/वर्ष के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहाँ भी क
- 7 कोविड-19 महामारी, एक वैश्विक महामारी, ने भारत सहित पूरे विश्व की सां वरह प्रभावित किया है और इसके परिणामस्वरूप, कंपनी के प्रचालन और परिणाम प्रमाति
- 31.03.2021 को समाप्त तिमाही और वर्ष के दौरान निवेशकों की कोई शिकायत लंबित न
- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान श्री बी. के. नरुला, कंपनी के प्रबंध निदेशक ने कोविड-19 मह को छोड़ दिया।

स्थान: नोएडा

तिथि: 28.06.2021

ATLANTIC COMMERCIAL COMPANY

Regd. Office: Unit No 2053, 2nd Floor, Plaza-II, Central Square, 20, Ma Bara Hindu Rao, Delhi-110006

CIN: L51909DL1985PLC020372, Ph: 011-4153914

E-mail ID: limitedatlantic@gmail.com, Website: www.atlantic-

EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH 2021

Sl.	Particulars	Quarter Ended	
		31.03.2021	31.12.2020
		Audited	Unaudited
1	Total income from operations	4.00	-
2	Net Profit/(Loss) for the year (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	3.28	(0.32)
3	Net Profit/(Loss) for the year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3.28	(0.32)
4	Net Profit/(Loss) for the year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3.13	(0.32)
5	Total Comprehensive Income for the year (Comprising Profit/(Loss) for the year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	3.13	(0.32)
6	Equity Share Capital	73.50	73.50
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		
8	Earnings per share (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations) -		
	1. Basic (in ₹):	0.43	(0.04)
	2. Diluted (in ₹):	0.43	(0.04)

Note: The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the fourth quarter and year ended 31 March 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the fourth quarter and year ended 31 March 2021 is available on the websites of the Stock Exchange (www.mseil.in) and on the company's website (www.atlanticcommercial.com).

For Atlantic

Place: New Delhi

Date: 28.06.2021

TENNECO FEDERATED POWERTRAIN

Regd. Office

Corp. off.

Website

E mail

Statement of financial results

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 31 March 2021 (Refer note-4)
		(₹ Lakhs)
1.	Total income from operations	37,091.66
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	3,846.43